



## Training & Placement Cell

# Dr. A.P.J. ABDUL KALAM UNIVERSITY, INDORE



Date – 14<sup>th</sup> November, 2024

### Career Guidance for Law students

#### करिअर ऑप्शन

## लॉ फील्ड में हैं जॉब्स की कई संभावनाएं

पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्टूडेंट्स का रुझान लॉ फील्ड की तरफ बढ़ रहा है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक कानून क्षेत्र में प्रतिवर्ष 46 हजार नौकरियां पैदा होती हैं। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत में लॉ जुड़ी नौकरियों में 35-40% की बढ़ोतरी हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक देश में 95% से अधिक लॉ ग्रेजुएट्स नौकरी पाने में सफल रहते हैं, जब अन्य कोर्सेस के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसे में यदि आप भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कई तरह के ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

#### पढ़ाई

- **5-वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम (BA LLB, BCom LLB, BSc LLB):** 12वीं के बाद कानून की पढ़ाई के लिए यह लोकप्रिय विकल्प है।
- **3-वर्षीय LLB प्रोग्राम:** यह ग्रेजुएशन के बाद उपलब्ध है।
- **LLM (मास्टर ऑफ लॉ):** कानून में विशेषज्ञता के लिए।
- **डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स:** साइबर लॉ, इंटरनेट लॉ, प्रोपर्टी राइट्स, और अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे क्षेत्रों में छोटे कोर्स।
- **डॉक्टरेट (Ph.D. इन लॉ):** शोध- शिक्षण में करिअर के लिए।

#### ट्रेडिशनल जॉब्स

1. **कोर्टरूम:** लॉ की पढ़ाई के बाद जज बनना एक ट्रेडिशनल और सम्मानजनक विकल्प हो सकता है। इसके लिए ज्युडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन और पीसीएस-जे एग्जाम क्लियर करने होंगे। इसी तरह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी या उच्च-स्तरीय कानूनी सहायक भी सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर हैं। इसके अलावा एनएलबी के बाद वकालत सबसे लोकप्रिय विकल्प है।
2. **लॉ फर्म:** ये फर्म क्लाइंट्स को एक या अधिक वकीलों की सेवाएं देती हैं। खैतान एंड कंपनी, तुकराल लॉ एसोसिएट्स, आनंद एंड आनंद और ट्राइलीगल आदि भारत की प्रमुख कानून फर्मों में शामिल हैं।

#### नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स

1. **लीगल जर्नलिस्ट:** आम लोगों को कानूनी मामलों और अवधारणाओं को समझने में मुश्किल होती है। लेकिन लीगल जर्नलिस्ट इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं।
2. **लीगल रिसर्च और एकेडमिक्स:** लीगल स्कॉलर्स एकेडमिक के अलावा कई तरह के थिंक टैंक, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। नए कानून और नीतियां बनाने में भी योगदान दे सकते हैं।

**ANIL MISHRA**

(Training & Placement Officer)